https://archive.org/details/bk1274/page/n0/mode/1up

2012-11-10 -Bharat Sadhu Samaj Certificate (1274)

All Items on https://archive.org/details/realpatidar

realpatidar.com

Full Library on https://realpatidar.com/library

भारत साधु समाज

शाखा कार्यालय : अध्यक्ष-महंत श्री, गोपाला नंदजी, बीलनाथ महादेव, जुनागढ. फोन : ०२८५ - २६७१४२२

शाखा कार्यालय : महंत श्री पहेलवान बापुश्री मनोकामना सिद्ध हनुमान, केनाल रोड, कापड मील गेट के पास, राजकोट.

सर्व भूत हिते रता: भारत साधु समाज

✵ अध्यक्ष ✵
महंत श्री
गोपालानंदजी ब्रह्मचारी
बिलखा
फोन नं. ०२८५-२६८३०८७

बालकेश्वर मंदिर
अहमदाबाद
फोन नं. ०७९-२७५५६७०७

✵ सेक्रेटरी ✵
महंत श्री वैष्णवदासजी
जागनाथ महादेव,
राजकोट
फोन नं. ०२८१-२४६५८२०

✵ जो. सेक्रेटरी ✵
महंत श्री
रधुवरदासजी पहेलवान
श्री डेमेश्वर महादेव
आजी-१, राजकोट.

खाखा मढी हनुमान
मंदिर, सारण पुल के
पास, जेतपुर.
मो. ९३२७७ ०५१८८
मो. ९९०९६ ०३३३९

प्रति श्री,

दिनांक : दिनांक : 20/11/12
स्थान :

सतपन्थ नामक संस्था के कुचक्रों से सावधान

आत्मीय सन्तवृन्द!

भारतवर्ष में सर्वत्र एक **सतपन्थ** नामक धार्मिक संस्था के द्वारा हिन्दू, नाम, आचार एवं साहित्य सम्बन्धी शब्दों का उपयोग कर कुछ लोग बनावटी हिन्दू धार्मिक साहित्य द्वारा जनता को भ्रमित कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बढ़ावा दे रहे हैं । उदाहरण के लिये - दशावतार के नाम पर **मुहम्मद पैगम्बर के जामाता हजरत अली तालीब** को विष्णु का दसवाँ अवतार मानना, उन्हें निष्कलंकी नारायण कहना इत्यादि । इसी **सतपन्थ** की शाखायें गुजरात एवं महाराष्ट्र में भी कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से **पीराणा सतपन्थ** नाम से लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है । **आगाखाँ फाउण्डेशन** नाम की विदेशी रिसर्च संस्था यहाँ के बुद्धिजीवियों पर अपना आधिपत्य जमा रही है । कहना न होगा कि मुहम्मद अली जिन्ना के दादा और पिता भी इसी धर्म से प्रभावित होकर मुसलमान हो गये थे ।

सतपन्थ का विरोध होने पर इनके चतुर मुसलमान प्रचारकों ने **ताकिया** (इस्लाम में प्रतिबन्धित सभी आचार-विचार का उल्लंघन कर अन्य धर्मानुयायी को मुलमान बनाना) का प्रयोग शुरु कर दिया है । दुःख की बात है कि न केवल भोली-भाली हिन्दु जनता ही प्रत्युत् अनेक प्रतिष्ठित संत-महात्मा भी इनके कुचक्र से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें **सतपन्थ** के इस षडयन्त्र से परिचित होना चाहिये तथा हिन्दुओं को मुसलमान बनने से रोकने में सहयोग करना चाहिये । कच्छ गुजरात में भी एक विशेष समाज को ये **सतपन्थी** प्रभावित कर रहे हैं । ध्यातव्य है कि **सतपन्थ** के कुचक्र का विरोध करने वाले संतों के प्रभाव से बचने के लिये और जनता का विश्वास जीतने के लिये ये लोग समय-समय पर हिन्दू संतों का सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं । जैसे - इमाम शाह की कवर को समाधि कहकर कब्रिस्तान के बगल में एक बार साधु-सम्मेलन इनके द्वारा किया जा चुका है, जिससे पीराणा सतपन्थ को पुष्पित-पल्लवित होने का आधार प्राप्त हो रहा है । पीराणा जाने से मालूम नहीं पड़ता कि ये स्थान हिन्दुओं का है या मुसलमानों का ।

अनेक प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर निःसंकोचतया यह कहा जा सकता है कि अनेक नामों से प्रचलित **पीराणा सतपन्थ** सनातन हिन्दूधर्म, संस्कृति एवं वैदिक परम्परा को अनवरत क्षति पहुँचा रहा है । कुछ पत्रों के आधार पर यह भी पता चला है कि यह पन्थ 17-19 नवम्बर 2012 को पुनः एक सम्मेलन करने जा रहा है जिसमें देश के अनेक प्रतिष्ठित संत-महात्मा भाग लेने जा रहे हैं । उसके निमन्त्रण पत्र के मुखपृष्ठ पर लिखा है 'ॐनिष्कलंकी नाराणाय नमः' 'ॐ सनातन सतपन्थ' यह सम्मेलन भी **सतपन्थ** (छद्मरूप से इस्लाम की प्रचारक संस्था) के द्वारा ही कराया जा रहा है ।

अतः समस्त सनातन वैदिक धर्म, हिन्दू संस्कृति की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आप समस्त हिन्दूधर्मावलम्बियों को इस प्रकार के षडयन्त्रों से सावधान होने की आवश्यता है । एतावता **भारत साधु समाज** ऐसे छद्म संस्थाओं के षडयन्त्र का विरोध करता है ।

ब्र. गोपालानन्द

(ब्रह्मचारी गोपालानन्द)
अध्यक्ष

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1274/page/n1/mode/1up

Real Patidar Library

https://www.realpatidar.com/library

This book/literature/article/material may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden.

The library does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents will be complete or accurate or up to date. The library shall not be liable for any loss, actions, claims, proceedings, demand, or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material.

Full terms and conditions of use: http://www.realpatidar.com

About Real Patidar books

Real Patidar's mission is to organize the information on Satpanth religion, which is a Nizari Ismaili sect of Shia branch of Islam, and to make it universally accessible and useful. Real Patidar Books helps readers discover the material on Satpanth online while helping authors and researchers in their studies. You can know more by visiting http://www.realpatidar.com

You can resize and move this box in any PDF Application like Adobe Acrobat Reader.

No specific pages. See whole book.
References by: RealPatidar.com

https://archive.org/details/bk1274/page/n2/mode/1up

2012-11-10 -Bharat Sadhu Samaj Certificate (1274)

realpatidar.com

भारत साधु समाज

शाखा कार्यालय : अध्यक्ष-महंत श्री, गोपाला नंदजी, बीलनाथ महादेव, जुनागढ. फोन : ०२८५ - २६७१४२२

शाखा कार्यालय : महंत श्री पहेलवान बापुश्री मनोकामना सिद्ध हनुमान, केनाल रोड, कापड मील गेट के पास, राजकोट.

सर्वे भूत हिते रता :
भारत साधु समाज

✷ अध्यक्ष ✷
महंत श्री
गोपालानंदजी ब्रह्मचारी
बिलखा
फोन नं. ०२८५-२६८३०८७

बालकेश्वर मंदिर
अहमदाबाद
फोन नं. ०७९-२७५५६७०७

✷ सेक्रेटरी ✷
महंत श्री वैष्णवदासजी
जागनाथ महादेव,
राजकोट
फोन नं. ०२८१-२४६५८२०

✷ जो. सेक्रेटरी ✷
महंत श्री
रघुवरदासजी पहेलवान
श्री डेमेश्वर महादेव
आजी-१, राजकोट.

खाखा मढी हनुमान
मंदिर, सारण पुल के
पास, जेतपुर.
मो. ९३२७७ ०५१८८
मो. ९९०९६ ०३३३९

प्रति श्री,

दिनांक : दिनांक : 10/11/12
स्थान :

सतपन्थ नामक संस्था के कुचक्रों से सावधान

आत्मीय सन्तवृन्द!

भारतवर्ष में सर्वत्र एक **सतपन्थ** नामक धार्मिक संस्था के द्वारा हिन्दू, नाम, आचार एवं साहित्य सम्बन्धी शब्दों का उपयोग कर कुछ लोग बनावटी हिन्दू धार्मिक साहित्य द्वारा जनता को भ्रमित कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिये - दशावतार के नाम पर **मुहम्मद पैगम्बर के जामाता हजरत अली तालीब** को विष्णु का दसवाँ अवतार मानना, उन्हें निष्कलंकी नारायण कहना इत्यादि । इसी **सतपन्थ** की शाखायें गुजरात एवं महाराष्ट्र में भी कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से **पीराणा सतपन्थ** नाम से लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है । **आगाखाँ फाउण्डेशन** नाम की विदेशी रिसर्च संस्था यहाँ के बुद्धिजीवियों पर अपना आधिपत्य जमा रही है । कहना न होगा कि मुहम्मद अली जिन्ना के दादा और पिता भी इसी धर्म से प्रभावित होकर मुसलमान हो गये थे ।

सतपन्थ का विरोध होने पर इनके चतुर मुसलमान प्रचारकों ने **ताकिया** (इस्लाम में प्रतिबन्धित सभी आचार-विचार का उल्लंघन कर अन्य धर्मानुयायी को मुलमान बनाना) का प्रयोग शुरु कर दिया है । दुःख की बात है कि न केवल भोली-भाली हिन्दु जनता ही प्रत्युत् अनेक प्रतिष्ठित संत-महात्मा भी इनके कुचक्र से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें **सतपन्थ** के इस षडयन्त्र से परिचित होना चाहिये तथा हिन्दुओं को मुसलमान बनने से रोकने में सहयोग करना चाहिये । कच्छ गुजरात में भी एक विशेष समाज को ये **सतपन्थी** प्रभावित कर रहे हैं । ध्यातव्य है कि **सतपन्थ** के कुचक्र का विरोध करने वाले संतों के प्रभाव से बचने के लिये और जनता का विश्वास जीतने के लिये ये लोग समय-समय पर हिन्दू संतों का सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं । जैसे - इमाम शाह की कवर को समाधि कहकर कब्रिस्तान के बगल में एक बार साधु-सम्मेलन इनके द्वारा किया जा चुका है, जिससे पीराणा सतपन्थ को पुष्पित-पल्लवित होने का आधार प्राप्त हो रहा है । पीराणा जाने से मालूम नहीं पड़ता कि ये स्थान हिन्दुओं का है या मुसलमानों का ।

अनेक प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर निःसंकोचतया यह कहा जा सकता है कि अनेक नामों से प्रचलित **पीराणा सतपन्थ** सनातन हिन्दूधर्म, संस्कृति एवं वैदिक परम्परा को अनवरत क्षति पहुँचा रहा है । कुछ पत्रों के आधार पर यह भी पता चला है कि यह पन्थ 17-19 नवम्बर 2012 को पुनः एक सम्मेलन करने जा रहा है जिसमें देश के अनेक प्रतिष्ठित संत-महात्मा भाग लेने जा रहे हैं । उसके निमन्त्रण पत्र के मुखपृष्ठ पर लिखा है 'ॐनिष्कलंकी नाराणाय नमः' 'ॐ सनातन सतपन्थ' यह सम्मेलन भी **सतपन्थ** (छद्मरूप से इस्लाम की प्रचारक संस्था) के द्वारा ही कराया जा रहा है ।

अतः समस्त सनातन वैदिक धर्म, हिन्दू संस्कृति की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आप समस्त हिन्दूधर्मावलम्बियों को इस प्रकार के षडयन्त्रों से सावधान होने की आवश्यता है । एतावता **भारत साधु समाज** ऐसे छद्म संस्थाओं के षडयन्त्र का विरोध करता है ।

ब्र. गोपालानन्द

(ब्रह्मचारी गोपालानन्द)
अध्यक्ष

realpatidar.com